

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, फेडरल और प्रोविंसियल सरकारी साझेदारों और स्टेलैंटिस के द्वारा हुई निवेश की घोषणा का स्वागत करती है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (2 मई, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, आज की गई घोषणा का स्वागत करती है कि फेडरल और प्रोविंसियल सरकारें इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए, स्टेलैंटिस के कैनेडियन ऑटो प्लांटों - जिनमें ब्रैम्पटन में इसकी फैसिलिटी भी शामिल है, की मदद करने के लिए साझे तौर पर 1 बिलियन डॉलर से अधिक का निवेश कर रही हैं। स्टेलैंटिस, अपने इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोजेक्टों में 2.4 बिलियन डॉलर का और निवेश कर रही है।

अपने ब्रैम्पटन असेंबली प्लांट (Brampton Assembly Plant) में, स्टेलैंटिस, बैटरी-इलेक्ट्रिक और हाईब्रिड वाहन बनाने में सक्षम, फ्लेक्सिबल असेंबली लाइन इंस्टॉल करेगी। यह ओवरहॉल, कम-निकासी वाले वाहनों के लिए बढ़ती उपभोक्ता मांग को पूरा करने के लिए, ऑटोमेकर की कैपेसिटी को डाइवर्सिफाई करेगा। 132 मिलियन डॉलर तक की ओनटैरियो की प्रतिबद्धता, ब्रैम्पटन में फैसिलिटी के लॉन्ग-टर्म के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद करती है।

ब्रैम्पटन में स्टेलैंटिस फैसिलिटी, ब्रैम्पटन की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का सहायक है और यह लगभग 3,000 मैनुफैक्चरिंग नौकरियां प्रदान करते हुए, लोकल अर्थव्यवस्था को काफी हद तक प्रभावित करती है। यह प्रांत में, कई अप्रत्यक्ष नौकरियां भी प्रदान करती है। यह अनुमान है कि एक ऑटोमोटिव फैसिलिटी में प्रत्येक एक नौकरी के साथ, पांच से छह अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होती हैं।

ब्रैम्पटन का एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग (Advanced Manufacturing) सेक्टर, प्रत्येक उद्योग में सहयोग, साझेदारी और नवीनता की नींव है। यह रोजगार के हिसाब से ब्रैम्पटन की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जो सिटी के लगभग एक तिहाई कार्यबल के लिए जिम्मेदार है। ब्रैम्पटन के एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग सेक्टर का 23 प्रतिशत कार्यबल, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में है।

ब्रैम्पटन की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में अधिक जानकारी के लिए, इस वेबसाइट: www.investbrampton.ca पर जाएं।

संक्षिप्त तथ्य

- फरवरी में, सिटी ने ब्रैम्पटन की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के महत्व के बारे में चर्चा करने के लिए और सरकार के सभी महकमों के द्वारा स्टेलैंटिस ब्रैम्पटन असेम्बली प्लांट (Stellantis Brampton Assembly Plant) में निवेश की जरूरत के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, [ब्रैम्पटन ऑटोमोटिव फोरम \(Brampton Automotive Forum\)](#) की मेजबानी की। इस फोरम में, ब्रैम्पटन सिटी काउंसिल (Brampton City Council) के मेम्बर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट (Economic Development) का स्टाफ, मंत्री, लोकल एम.पी. (MP) और एम.पी.पी. (MPP) शामिल हुए, जिन्होंने ब्रैम्पटन की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री और ओनटैरियो तथा कैनेडा की व्यापक ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के भविष्य के बारे में चर्चा की।

- ब्रैम्पटन की स्टेलैटिस फैसिलिटी, अपने ग्लोबल ऑपरेशंस में केवल एकमात्र प्लांट है, जो डॉज चार्जर्स (Dodge Chargers), डॉज चेलेंजर्स (Dodge Challengers) और क्रिस्लर 300 (Chrysler 300) का उत्पादन करती है।
- ब्रैम्पटन में बनने वाली कारों में से 90 प्रतिशत से अधिक निर्यात की जाती हैं, जिनमें से अधिकतर अमेरिका (U.S.) में जाती हैं।
- ब्रैम्पटन में ऑटोमोटिव पार्ट्स मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री में कई बड़ी कंपनियां हैं, जिनमें शामिल हैं, मैग्ना (Magna), मार्टिनरिया (Martinrea), ए.बी.सी. टेक्नोलॉजीस (ABC Technologies) और कई अन्य के स्वामित्व वाली फैसिलिटीज।

हवाले

“ब्रैम्पटन का ऑटोमोटिव श्रेष्ठता का गौरवमय इतिहास है, जो हमारी स्टेलैटिस फैसिलिटी और बड़े तथा इनोवेटिव एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़ा है। हम बेहद खुश हैं कि हमारा शहर, इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति ग्लोबल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री शिफ्ट का हिस्सा बनेगा और हम, इस संयुक्त निवेश के लिए फेडरल और प्रोविंसियल सरकारों में हमारे बहुमूल्य साझेदारों और स्टेलैटिस का धन्यवाद करते हैं। ब्रैम्पटन, हमारे लोकल कार्यबल और हमारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए, भविष्य सुनहरा है।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन का एडवांस्ड मैनुफैक्चरिंग सेक्टर, हमारी कम्युनिटी की सभी इंडस्ट्रीज में सहयोग, साझेदारियों और इनोवेशन के लिए आधार है, जो रोजगार के द्वारा हमारे शहर की सबसे बड़ी इंडस्ट्री का प्रतिनिधित्व करता है। आज घोषित उनके निवेश के लिए हमारे सरकारी साझेदारों और स्टेलैटिस का और हमारे समर्पित इकोनॉमिक डिवेलपमेंट स्टाफ का धन्यवाद, जिसने इस निवेश की जरूरत के बारे में जागरूकता पैदा की। यह हमारी संपूर्ण कम्युनिटी को लाभ पहुंचाएगा और अवसरों के शहर के तौर पर, ब्रैम्पटन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के इलेक्ट्रिफिकेशन में लीडर बनने के लिए उत्साहित है।”

- मार्टिन मेडेइरोस (Martin Medeiros), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन, इनोवेशन और एडवांस्ड मेनुफेक्चरिंग में लीडर है। हम आज की घोषणा का स्वागत करते हैं, जिससे स्टेलैटिस अपनी ब्रैम्पटन फैसिलिटी में संशोधन कर पाएगी। इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रति यह कार्रवाई न केवल लोकल अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाएगी, बल्कि यह ब्रैम्पटन को, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के भविष्य में आगे भी रखेगी।”

- पॉल विसेंट (Paul Vicente), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; वाइस-चेयर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“ब्रैम्पटन इकोनॉमिक डिवेलपमेंट ऑफिस, स्टेलैटिस को सहायता देना जारी रखने के लिए उत्साहित है – जो कि हमारी लोकल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का सहारा है – क्योंकि वे इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए अपनी ब्रैम्पटन फैसिलिटी में संशोधन कर रहे हैं। ब्रैम्पटन आगे की सोच वाले एडवांस्ड मेनुफेक्चरिंग सेक्टर की सहायता के लिए रणनीतिक तौर पर दृढ़ है और हमारे उच्च क्वालिटी कार्यबल और अवॉर्ड-विजेता मेनुफेक्चरिंग के साथ, हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के भविष्य का हिस्सा बनने के लिए, सर्वोत्तम जगह प्रदान करते हैं।”

- क्लेयर बार्नेट (Clare Barnett), डायरेक्टर, इकोनॉमिक डिवेलपमेंट, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“आज की घोषणा दर्शाती है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यूनियनों, सरकारें और इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव मेन्युफेक्चरिंग नौकरियों को सुरक्षित करने और कैनैडियन मेन्युफेक्चरिंग को मजबूत रखने में इकट्ठी मिलकर काम करें। ब्रैम्पटन असेम्बली प्लांट में मेहनती और समर्पित लोग, अपनी क्लास में उच्चतम क्वालिटी और सबसे अधिक बिकने वाले वाहनों में से कुछ को बनाने का गर्व महसूस करते हैं। अब, हम भी आने वाले वर्षों के लिए, कैनैडा के इलेक्ट्रिक वाहन बदलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का गर्व महसूस कर सकते हैं।”

- डैनी प्राइस (Danny Price), प्रेजिडेंट, यूनिफोर लोकल 1285

“यह निवेश, ब्रैम्पटन में स्टेलेटिस की मजबूत प्रतिबद्धता की दुबारा पुष्टि करता है। लोकल सप्लायरों और कर्मचारियों के लिए, इस निवेश का लगातार प्रभाव, हमारी कम्युनिटी के भविष्य के लिए बेहद अच्छा दिखाई देता है।”

- टोड लेट्स (Todd Letts), चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर, ब्रैम्पटन बोर्ड ऑफ ट्रेड

-30-

कैनैडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया
multiculturalmedia@brampton.ca